

March 08, 2024

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]
Equity ISIN INE591G01017
Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – [COFORGE]

Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of loss of Share certificate" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take the same into record.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary ACS 24060

Encl: as above



The Jammu & Kashmir Bank Limited

E-Auction Notice (For sale of immovable property/ies under the SARFAESI Act. 2002) "Appendix, IV-A, Refer Proviso to Rule 8(6)"

Notice is hereby given to the public in general and to the borrowers and guarantors in particular that the below mentioned property mortgaged to secured creditor (Jammu 8 Kashmir Bank Ltd), the possession of which has been taken by the Authorised officer of the Secured Creditor (Jammu & Kashmir Bank Ltd) under Section 13(4) of the SARFAESI Act, will be sold through E-auction on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis on below mentioned dates, for recovery of amount as mentioned below due to the secured creditor from concerned borrower(s), mortgagor(s) and guarantors. The Reserve Price is mentioned below and earnest money to be depos

is monitorica respectively.	
Name & Address of Borrower/Guarantors	M/s Amarjit Singh & Sons, C-103, New Subzi Mandi, Azadpu Delhi-110033 through its Proprietor. Mr. Amarjeet Singh S/o Mr. Avtar Singh R/o G-50, Bali Naga New Delhi 110015 (Proprietor). Mr. Narinder Singh S/o Sh. S. Joginder Singh R/o TP-82 Pitampura, Delhi-110034 (Guarantor). Mrs. Amarjit Kaur W/o Sh. Surjeet Singh R/o G-50, Bali Naga Delhi-110015 (Guarantor).
Details of Security Charged covered under Auction	Three Storeyed House (Ground, First and Second Floor) built o free hold land on Plot No. 50, in Block-G, measuring 200 sq. yds situated in Bali Nagar, Delhi standing in the name of Mr. Amarjit Singh
Reserve price	Rs. 615.82 lakh
EMD Amount	Rs. 61.58 lakh
Bid Increment	Rs. 2.00 Lakh
Outstanding Dues	Rs. 9.48 Crores as on 29.02.2024
Name & Number of Contact Person & Branch	Mr. Mohammad Yaqoob Kaloo (Branch Manager, Azadpur) Mo No: 7889557882, LL: 011-27670196 Jammu & Kashmir Bank, Branch Azadpur, Plot No. 9, Rajindr Jaina Tower, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033
Date & time of E-auction	27.03.2024 from 3.00 PM to 4.00 PM

Terms & Conditions of E-Auction are as under: erms & Conditions of E-Auction are as under:
The E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER
THERE IS" basis and will be conducted online. The bid document/format containing ful
details of the property and all the terms and conditions can be had from, and submittee
on, the website "http://sarfaesi.auctiontiger.net" (contact person Ram
9978591888, Contact no. 079-68136880/68136837 Mob.: +919265562821/18 email

support@auctiontiger.net).
To the best of knowledge and information of the Authorized officer, there are no encumbrances on the properties, except specifically disclosed herein. However, the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property/les put on auction and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The Authorized Officer/Secured Creditor shall no be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The bidders shall satisfy themselves as to the description, condition or accuracy of the details regarding the property/ies given hereinabove. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known ounknown to the bank.

unknown to the bank.

i. The interested bidders shall submit their offer along with EMD through website https://sarfaesi.auctiontiger.net (the user ID and password can be obtained free of cost by registering name with "http://sarfaesi.auctiontiger.net") through their login ID and Password. The EMD 10% of RESERVE PRICE shall be payable through NEFT/RTGS (EMD remittance details given above) on or before 26.03.2024 at 5.00 PM. Please note that Cheques/Demand Drafts shall not be accepted as EMD amount.

The sale shall be subject to rules/conditions rescribed under the Securitization and

The sale shall be subject to rules/conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Office has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cance

the e-auction without assigning any reason thereof.

The other terms and conditions of the e-Auction are available on the websi https://www.auctiontiger.net

Jammu & Kashmir Bank Ltd Registered Office: Corporate Headquarters M.A Road Srinagar-190001, J&K. India

CIN: L65110JK1938SGC000048; T:+91(0)194 2481 930-35; F: +91(0)194 248 1928; E: info@jkbmail.com W: www.jkbank.cor

PUBLIC NOTICE {LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)}

NOTICE is hereby given that the below mentioned Original Share Certificate(s) for 37500 Equity Shares of VINTRON INFORMATICS LIMITED are lost / misplaced, and that I, RUCHIKA RATHI (formerly known as RUCHIKA GUPTA) have applied to VINTRON INFORMATICS LIMITED, for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost Share Certificate(s):

- 1				
١	Folio No.	Certificate Nos.	Distinctive Nos.	Number of Share
١	16	39977	2849601 - 2887100	37500

Place: New Delhi Dated: 07-03-2024

RUCHIKA RATHI

BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Branch:- Collectorate Circle, Jhunihunu APPENDIX IV [Rule 8(I)] Symbolic POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas. The undersigned being the Authorised Officer of the Baroda Rajasthan Kshetriva Framin Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcer Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice No. BRKGB/2023-24/Recovery/523 date 26.12.2023 calling upon the (Borrower) M/s Jagdamba Bartan Bhandar Prop. Sh. Karansingh S/o Sh. Prabhusingh, Opposite Prabhat Takij, Near Kabadi Market, Road No.01, Jhunjhunu, District-Jhunjhunu (Raj, 3333001 to repay the amount mentioned in the notice being against classified as non-performing assets, a sum of Rs. 15,10,610.04 (Rs. Fifteen Lacs Ten Thousand Six Hundred Ten and Four Paisa Only) as on 26.12.2023 (interest include up to 26.12.2023) and further interest, other expenses thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 1 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rul 2002 on this 2nd day of March of the year 2024. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank for an amount of Rs. 15, 10,610.04 (Rs. Fifteen Lacs Ten Thousand Six Hundred Ten and Four Paisa Only) (interes include up to 26.12.2023) and further interest and other expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

Description of the Immovable Property (As per bank record) All that part and parcel of Equaitable Mortgage Residential Property sitated at Ward No. 07, Gram Post Derwala, Tehsil and Distt.: Jhunjhunu-333041 Residential Plot whose Patta No. 011 dated 06.11.2010 issued by Gram Panchyat Derwala. (Admeasruing 410.22 Sq. Yards. As per available Bank Record) in the Name of Sh. Prabhusingh Syo Sh. Magsingh Cast Rajput. Boundries. Nort Land of Sh. Prabhusingh, South: House of Sh. Amarsingh, East: Aam Rasa, West: House of Sh. Magsingh. D/4019 02103.2024 Authorised Office Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK

Branch:- Collectorate, Circle Jhunjhunu

APPENDIX IV [Rolle 8(i)] SYMEOLIC POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Baroda Rajasthan Kshetriya
Gramin Bank under the Security Interest Control and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule
3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice No. BRKGB/202324/Recovery/515 and 516 date 26.12.2023 calling upon the (Borrower) Sh. Prabhusingh S/o
Sh. Magsingh, Add.: Gram and Post-Derwala, Tehsil and District-Jhunjhunu (Raj.) 333001 and
Sh. Karansingh S/o Sh. Prabhu Singh (Co-Borrower) Add.: Gram and Post-Derwala, Tehsil and District-Jhunjhunu (Raj.) 333001 to repay the amount mentioned in the notice being against
classified as non-performing assets, a sum of Rs. 23,76,790.99 (Rs. Twenty Three Lacs Seventy
six Thousand Sevn Hundred Ninety and Ninety Nine Paisa Only) as on 26.12.2023 (interest
include up to 26.12.2023) and further interest, other expenses thereon within 60 days from the
date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is
hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken
possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him
under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest
(Enforcement) Rule 2002 on this 2nd day of March of the year 2024. The Borrowers in
particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any
dealings with the property will be subject to the charge of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin
Bank for an amount of Rs. 23, 76, 790, 99 (Rs. Twenty Three Lacs Seventy six Thousand Seventy
Hundred Ninety and Ninety Nine Paisa Only) (interest include up to 26.12.2023) and further
interest and other expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of APPENDIX IV [Rule 8(I)] SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (For Immovable Property

Description of the Immovable Property (As per bank record) All that part and parcel of Equaitable Mortgage Residential Property sitated at Patta No.15, Gram-Derwala, Tehsil and Distt: Jhunjhunu (Admeasruing 499.375 Sq. Yards. As per available Bank Record) In the Name of Sh. Prabhusingh S/o Sh. Magsingh. Registered in Book No.1 Jilid No. 607 Page No. 107 Sr. No. 202003228100486 Under Reg No. 202001228000813 In Record under Sub-Sub-Registrar-Jhunjhunu. Boundries. North: House of Sh. anadlal Mahajan, South: House of Sh. Harisingh Naruka, East: House of Sh. Sawarmal Brahaman, West: Rasta Date: 02.03.2024 Place: Derwala, Jhunihunu Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

T.A. 2356/2022 **PUNJAB NATIONAL BANK**

Sector-18, Gurgaon, Haryana -122015

٧s **PIYUSH KUMAR VERMA AND ORS**

(1) Piyush Kumar Verma And Ors. R/O Ground Floor, H.No. 589 Sector-9. Gurgaor Harvana-122001. Also at: Delphique India Pvt Ltd., Hans Ram Market Udyog Vihar

(2) Smt Babita Gauba @ Babita Verma W/o Piyush Kumar Verma R/o Ground Floor H

No. 589 Sector-9, Gurgaon, Haryana-122001 Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs 90,11,930.50 (Rupees Ninety Lakhs Eleven Thousand Nine Hundred Thirty and Paisa Fifty Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Fribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given advertisement directing you to make appearance before Hon'ble on 16-04-2024 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in) Phone No. 011-23748473. Take notice that in case of your failure to appear on the above entioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:- All the Advocates / Litigants shall download the

'Cisco Webex" application / Software; "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/and Recovery Officer-I shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "drt.gov.in" under the Public Notice Head. In any exigency qua that, the Advocates / Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Siven under my hand and seal of the Tribunal on this 14th February, 2024. by order of this Tribuna For Registra

Respondent may contact under mention phone number for further enquiry.

Mr. Amit K. Dar (Ld. Registrar, DRT-I), Ph.: 011-23748473, Email: dr11delhi-dfs@nic.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 17.08.2022 calling upon the Borrower(s) AKASH DEEP CHHONKER AND PRABHA CHHONKER to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 4,72,675.73/-(Rupees Four Lakh Seventy Two Thousand Six Hundred Seventy Five and Paise Seventy Three Only) against Loan Account No. HHLDCP00287440 as on 16.08.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said

Notice Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic** Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 on **04.03.2024**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 4,72,675.73/-(Rupees Four Lakh Seventy Two Thousand Six Hundred Seventy Five and Paise Seventy Three Only) as on 16.08.2022 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. VA - 2810.(1 BHK) ON 28TH FLOOR. TOWER - VA. MEASURING SUPER AREA 515 SQ.FT. IN THE PROJECT KNOWN AS "AJNARA PANORMA" WITH USAGE RIGHT OF COVERED CAR PARKING SPACE, SITUATED AT GH-04 SECTOR - 22A, YAMUNA EXPRESSWAY, DISTT. GAUTAMBUDH NAGAR, GREATER NOIDA-201301 UTTAR PRADESH.

Date: 04.03.2024 Place: GREATER NOIDA INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. **Ph:** 91 (11) 41029297 Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to ne Company for the issuance of duplicate share certificate

Folio	Name of the Registered holder	Certificate	Distinct	ive Nos.	No. of	Н
No.	Name of the Registered holder	No.	From	То	Shares	П
3133	P D Goyal	2919	10970354	- 10970354	1] [
2101	Gandhi Sharma	2125	10881187 -	- 10881354	168] [
		7302	39232408	- 39232491	84	
2611	Ashok Kumar Agrawal	2640	10957514	- 10957625	112] [
		7582	39251317	- 39251372	56	
2610	Sudha Devi Agrawal	2639	10957289	- 10957513	225] [
		7581	39251205	- 39251316	112]
2101	Gandhi Sharma Ashok Kumar Agrawal	2125 7302 2640 7582 2639	10881187 - 39232408 - 10957514 - 39251317 - 10957289 - 39251205	- 10881354 - 39232491 - 10957625 - 39251372 - 10957513	84 112 56 225 112	

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner For and on behalf of

Coforge Limited Barkha Sharma

Mahindra

Dated: March 07, 2024 Company Secretary Place: Greater Noida

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, gned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN : L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated Tr.08.2022 calling upon the Borrower(s) AKASHDEEP CHHONKER AND PRABHA CHHONKER to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 4,38,641.65/ (Rupees Four Lakh Thirty Eight Thousand Six Hundred Forty One and Paise Sixty Five Only) against Loan Account No. HHLDCP00287432 as on 16.08.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 04.03.2024. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to dea with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 4,38,641.65/-

(Rupees Four Lakh Thirty Eight Thousand Six Hundred Forty One and Paise Sixty Five Only) as on 16.08.2022 and interest thereon. The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. VA-2707. ON 27TH FLOOR, TOWER - VA, MEASURING 515 SQ.FT SUPER AREA APPROX., IN THE PROJECT KNOWN AS "AJNARA PANORMA" ALONGWITH USAGE RIGHT OF COVERED CAR PARKING SPACE, SITUATED AT GH - 04 SECTOR - 22A, YAMUNA EXPRESSWAY, DISTT. GAUTAMBUDH NAGAR GREATER NOIDA - 201301 UTTAR PRADESH.

Asset recovery Management Branch CB-CH/38, Near Dwarika Das Garden, B2 Bypass, Mansaroyar, यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

[See proviso to Rule 6(2) & 8(6)

Sale Notice for sale of movable/immovable properties E-Auction Sale Notice for Sale of movable/Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) & 8 (6) of the Secu

S. V	Name & address of Borrower/Guarantor	Description of the immovable property put for auction	Reserve Price (Rs.) EMD Amount (Rs.) Bid Incr. Amt.	Dues to be recovered from Borrower/Guarantor (Rs.)	Date and Time of Auction Last date of submission of bi
1.	Chittorgarh Road Near RTC Nimbahera, Dist. Chittorgarh (Rajasthan)-312601	All that part and parcel of Property consisting of Residential land & building situated at zone no. 25, Ishaqpura, Nimbahera, Chittorgarh (rajasthan) admeasuring 33°46 ft, east to west 33 ft & north to south 46 ft total area 1518 sq ft in the name of Mr. Gulzar Khan s/o Yusuf Khan. Bounded as follows: East: Plot of Laxmi Narayan, West: Arazi of Lobhchand, North: Road, South: Plot The Sale shall be subject to the outcome of SA No: 824/2022	Rs. 44,85,000/- Rs.4,48,500/- Rs. 45000/-	Rs.24,95,483.75/- as on 21.11.2022 plus legal & other misc charges and further interest at contractual rate & cost thereafter	27.03.2024 from 12:00 Noon to 3:00 Pf (with unlimited Extension o 10 Minutes) On or before the commencement of e-Auctic
	a) Borrower: M/s Jeewandeep Associates (Borrower); At: Second Floor, S-5, Plot No. 3, Jagdamba Tower, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur – 302012 Sh. Narendra Singh Nirwan S/o Sh. Ganpat Singh (Proprietor); At: 26, Govind Nagar Vistar, Gokulpura Road, Nr. Sharad Marriage Garden, Jhotwada, Jaipur – 302012 b) Guarantor: Smt. Nisha Kanwar W/o Sh. Narendra Singh Nirwan (Guarantor); At: 26, Govind Nagar Vistar, Gokulpura Road, Nr. Sharad Marriage Garden, Jhotwada, Jaipur – 302012, Sh. Keshar Singh S/o Sh. Bhagirath Singh (Guarantor); At: SD-226, Shanti Nagar, Hasanpura, Lal Kothi Gandhi Nagar, Jaipur -302015 Smt. Saroj Kanwar W/o Sh. Keshar Singh (Guarantor); At: C-20, Karni Uma Vihar,	The Sale Shall be Subject to the outcome of SA No: 13/2024 Jaipur. Measuring 110.74 Square yards in the name of Smt. Saroj Kanwar W/o Mr. Keshar Singh. Boundaries:- East-Road 30 ft. Wide, West- Plot No. 28 & 29, North- Plot No. 21, South- Plot No. 19 The Sale shall be subject to the outcome of SA No: 13/2024	Rs. 38,70,000/- Rs. 3,87,000/- Rs. 50,000/-	Rs. 2,48,65,501.87/- as on 31/05/2023 dues outstanding as per demand notice (13/2) dated 21.06.2023 and further interest, charges and other expenses.	27.03.2024 from 12:00 Noon to 5:00 Pl (with unlimited Extension of 10 Minutes) On or before the commencement of e-Auction
3.	Gokulpura Kalwar road, Jaipur – 302012 Borrower: I) M/s Kuber Engineering (Prop Mrs. Divya Singh Ranawat); H-1-143 Silora Industrial Area Silora Kishangarh Ajmer Pin no 305802 II) Mrs. Divya Singh Ranawat W/o Prabhu Narayan Bagoriya (Proprietor); At: 3/66 Jawahar Nagar Opp Post Office Jaipur Rajasthan Pin No. 302015 (mob 9829060496) III) M/s Kuber Minerals & Chemicals (Prop Prabhu Narayan Bagoriya (Mortgagor & Guarantor); At: House No. A-125 Mangal Niwas Shyam Puri Hida ki mori Jaipur Rajasthan Pin no. 302003	Silora RIICO Industrial Area, Kishangarh, Ajmer (measuring 500 Sq Mtr) in the name of M/s Kuber Minerals & Chemicals (Prop Prabhu Narayan Bagoriya). Bounded by: East Plot no. H1-142, West: Plot no. H1-144,	Rs. 24,40,000/- Rs. 2,44,000/- Rs. 10,000/-	Rs 42,19,401.74 as on 31.01.2023 dues outstanding as per demand notice (13/2) dated 21.02.2023 and further interest, charges and other expenses.	27.03.2024 from 12:00 Noon to 5:00 P (with unlimited Extension of 10 Minutes) On or before the commencement of e-Auctic
	Rajasthan. 2) Mr. Akash Goyal (Director and Guarantor); 168, Mahapragya Vihar, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan. 3) Mrs Asmita Goyal (Director and Guarantor); 168, Mahapragya Vihar, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan. 4) Mrs Uday Kumar Chimanbhai	Phosphate India pvt ltd. Bounded as follows: EAST : ARAJI NO 4820,	Rs 232.50 lacs Rs 23.25 lacs Rs. 232500/-	Rs. 41613602.99/- as on 10.05.2019 dues outstanding as per demand notice U/s 13(2) dated 10.05.2019 and further interest, charges and other expenses	27.03.2024 from 12:00 Noon to 5:00 P (with unlimited Extension of 10 Minutes) On or before the commencement of e-Auction
	Borrower: Sacheti Electric Co.Prop. Shreyansh Sacheti (Borrower) 137/4 Lakhan Kotari Sacheti Bhawan Ajmer 305001 Shreyansh Sacheti (Borrower) 137/4 Lakhan Kotari Sacheti Bhawan Ajmer 305001	All that piece and parcel of Property consisting of flat/plot no.,AMC NO 882/8 (PORTION E) at Sacheti Complex Madar Gate Ajmer in the name of Shri Shreyansh Sacheti measuring Area 356.73 sq feet and bounded as follows: North- Madar Gate Rasta, South- Corridor (passage), East-Remaining part of property Shekhar Chand Sacheti, West- Hotel Pravasi	Rs. 28,89,000/- Rs. 2,88,900/- Rs. 30,000/-	Rs. 58,22,988.90/- as on 31.03.2021 dues outstanding as per demand notice (13/2) dated 16/04/2021 and further interest, charges and other expenses.	27.03.2024 from 12:00 Noon to 5:00 P (with unlimited Extension of 10 Minutes) On or before the commencement of e-Auction
	Extension, Sirsi Road, Jaipur-302021		Rs.1,33,00,000/- Rs.13,30,000/- Rs. 50,000/-	Rs. 2,24,61,576.61/- as on 30/06/2022 dues outstanding as per demand notice (13/2) dated 07.07.2022 and further interest, charges and other	27.03.2024 from 12:00 Noon to 5:00 P (with unlimited Extension of 10 Minutes)
	Mr. Rajesh Yadav S/o Sh. Jagdish Prasad Yadav (Director); Plot No 204, Officer Campus Vistar, Sirsi Rad Jaipur-302021	Property No.2: Residential property located at Patta No 1049, Khasra No 708/1, Village Kishangarh Renwal, Tehsil Phulera, and Distt. Jaipur. In the name of Mr. Jagdish Prasad Yadav measuring 306 Sq. Yds. Boundaries by: North-Property of J. P. Yadav (patta no 1048), South-Property of Mr. Khati, East-Road, West-Property of Mr. Gopal. The Sale shall be subject to the outcome of SA No: 709/2022	Rs. 34,51,000/- Rs. 3,45,100/- Rs. 50,000/- pending at DRT	expenses. Jaipur.	commencement of e-Auction
	Borrower: M/s R S Overseas (Proprietor's Mr. Abhishek Dangayach); At. G-880, Road No.14, VKIA, Sikar Road, Jaipur-302013. Prop. Mr. Abhishek Dandgayach S/o Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012 Guarantor's: i) Mr. Satya Prakash Khandelwal S/o Ramji Lal Khandelwal, At: Plot no	Property no. 1: Commercial Shop Situated at G-12 Krishi Upaj Mandi Surajpoj (Main Mandi Yard) Jaipur (admeasuring 116.17 Sq meter) Owned by M's Shankar Trading Company (Partnership firm Mr. Ashish Dangayach S'o Mr. Satya Prakash Khandelawal) Bounded by: North: Shop no. G-13,	Rs.83,48,000/- Rs. 8,34,800/- Rs. 50,000/-	1. M/s R S Overseas: Rs.4,10,19,253.86/- as on 30.04.2022 with further interest, cost & expenses	10 Minutes)
	218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012 ii) Mr. Ashish Dandgayach S/o Satya Prakash Khandelwal, At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012	Property no. 2:- Commercial Shop Situated at BHA-7 With platform Krishi Upaj Mandi Surajpol Jaipur Rajasthan 302001 admeasuring 65.06 Sq Meter owned by M/s R S Enterprises a Proprietorship firm of Mr. Abhishek Dangayach S/o Satya Prakash Khandelwal. Bounded by: North: Shop no. BHA-24, South: Shop no. BHA-8, East: Shop no. BHA-6, West: Road 28 feet wide		M/s RAMJI LAL SATYA PRAKASH: Rs.1,82,41,294/- as on 30.04.2022 with further interest, cost & expenses M/S SHANKAR TRADING	On or before the commencement of e-Auction
	Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012 v) M/s R S Enterprises (Prop Mr. Abhishek Dandgayach); At: BHA-7 Krishi Upaj Mandi (Grin), Surajpol Main Mandi Yard, Jaipur Rajasthan 302001	Property no. 3:- Commercial Shop no. P-60 (788) Chaukri Sarhad Kotawali choti Chouper Khanda Jaipur (admeasuring 40.34 sq yards) owned by mr. Satya Prakash Khanelwal S/o Ram Ji Lal. bounded by: North: Private Shop Shebumal Pohumat, South Private Shop Sabhu Narain Ji, East: Atish Market, West: Khanda Choti Chouper and Raod	Rs.1,49,35,000/- Rs. 14,93,500/- Rs. 50,000/-	COMPANY: Rs.2,79,72,107.94/- as on 30.04.2022 with further interest , cost & expenses	

Mr. Satya Prakash Khandelwal Sio Ramji Lal Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
ii) Mr. Ashish Dandgayach Sio Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
iii) Mr. Ashish Dandgayach Sio Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
iii) Mr. Abhishek Dandgayach Sio Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
iv) Mrs. Madhu Dangayach Wio Mr. Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
iv) Mrs. B S Enterprises (Prop Mr. Abhishek Dandgayach); At: BHA-7 Krishi Upaj Mandi (Grin), Surajpol Main Mandi Yard, Jaipur Rajasthan 302001
vi) Mrs R S Pulses (Proprietor's Mrs. Madhu Dangayach); At: A-73 Krishi Upaj Mandi (Kukarkhera sikar Road Jaipur Rajasthan 302012
vii) Mrs S Sankar Trading Company Partner's Mr. Satyapraksh Khandelwal and Mr. Ashish Dangayach); At: G-12 Krishi Upaj Mandi (Grin) Main Yard Surajpol Jaipur Rajasthan 302011
Viii) Mrs R S Overseas (Prop. Mr. Abhishek Dangayach); At: G-880 Road no. 14 VKIA, Sikar Road Jaipur Rajasthan 302013

Encumbrances known to secured creditor, if any- Not Known to the Bank For details terms and conditions of sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website sarfaesi@unionbankofindia.bank; www.mstcecommerce.com bapifin@mstcecommerce.com, www.unionbankofindia.bank, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/lbapi/index.jsp.
For auction related queries contact Branch: Asset Recovery Management Branch, CB-CH/38, Near Dwarika Das Garden, B2 Bypass, Mansarovar, Jaipur, Raj- 302020 (Raj.) Mobile No- 9983811120 / 9826471770.
This notice also is treated as notice U/R 8(6) & provision to Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale of the above said p

vii) M/s R S Overseas (Prop. Mr. Abhishek Dangayach); At: G-880 Road no. 14 VKIA, Sikar Road Jaipur Rajasthan 302013

Borrower: M/s Ram Ji Lal Satya Prakash (Partner's Mr. Ashish Dangayach and Mr. Satya Prakash Khandelwal); At: P-60 (788) Kotwali Sarhad Choti Chouper Khanda Marker Jaipur Rajasthan 302001

Partners: 1. Mr. Ashish Dangayach, S/o Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012

Mr. Satya Prakash Khandelwal S/o Ramji Lal Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012

2. Mr. Ashish Dandgayach S/o Mr. Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012

v) Mrs. Madhu Dangayach W/o Mr. Satva Prakash Khandelwal: At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha. Ihotwara Jainur Raiasthan 302012

ny Mis-nadriu Dangayach Wiyo Mayari Hadagayach), Att BHA-7 Krishi Upaj Mandi (Grin), Surajpo Main Mandi Yard, yi Mis R S Enterprises (Prop Mr. Abhishek Dandgayach); Att BHA-7 Krishi Upaj Mandi (Grin), Surajpo Main Mandi Yard, Jaipur Rajasth vi) M/s R S Pulses (Proprietor's Mrs. Madhu Dangayach); Att A-73 Krishi Upaj Mandi Kukarkhera sikar Road Jaipur Rajasthan 302012

Guarantor's: i) Mr. Satya Prakash Khandelwal S/o Ramji Lal Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
ii) Mr. Ashish Dandgayach S/o Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012
iii) Mr. Ashish Dandgayach S/o Satya Prakash Khandelwal; At: Plot no 218 Jagannath Puri Kanta Choraha Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012

Date: 06.03.2024 Place: Jaipur

Authorized Officer, Union Bank of India

MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD.

Date: 04.03.2024 Place: GREATER NOIDA

POSSESSION NOTICE

Authorized Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office- Unit No. 203, Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, Opp.

NOTIC
Fire Brigade Station, Kamani Junction, L.B.S Main Road, Kurla(West), Mumbai – 400070. Tel. +91 22 62929800 RO Office/Lucknow Branch Address: 2nd floor, Ashoka Raj Tower, Plot no. CP-162, Sector D-1, LDA Colony, Near Power House Choraha, Aashiyana, Lucknow, UP-226012.

Ghaziabad Branch: 1st Floor, Plot No-17, P Block, Sector 23, Sanjay Nagar, Near Vishal Mega Mart, Ghaziabad, U.P – 201002. (For Immovable Property) (Under Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of M/s Mahindra Rural Housing Finance Ltd, (hereinafter referred to as "MRHFL"), Having its registered office at **Lucknow** and Branch Office **Ghaziabad** under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein above and to the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power $conferred on me \, under \, sub \, section \, (4) \, of \, section \, 13 \, of \, the \, Act \, read \, with \, the \, Rule \, 8 \, of \, the \, Security \, Interest \, (Enforcement) \, Rules \, , \, 2002 \, (1) \, and \, (2) \, and \, (3) \, and \,$ The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and

any dealings with the property will be subject to the Charge of M/s Mahindra Rural Housing Finance Ltd, for an amount and interes The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

secured assets

S. N.	Name of the Borrower (s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date and Amount	Date of Possession			
1.	(LC No: 717936	H.NO-9, KHASRA NO-106 MI, SITUATED	31-05-2022	05/03/24			
	Ghaziabad Branch)	AT SANGAM VIHAR, VILLAGE -SADDIQ	Rs. 1555150/-	PHYSICAL			
	PRADEEP KUMAR (Borrower)	NAGAR, NANDGRAM, GHAZIABAD-UP	(Rupees Fifteen	Possession			
	HARENDRA SINGH (Co-Borrower)	201003. Boundaries: East: Road 7 Ft,	Lakh Fifty Five				
	At: H.no-1453, Viveka Nand Nagar,	West: House of ANKIT, North: Plot of	Thousand One				
	Ghaziabad, UP - 201001	Others, South: House of AMIT SAXENA	Hundred Fifty Only)				
PI	Place: Ghaziabad Date: 08/03/2024 Authorised Officer, Mahindra Rural Housing Finance Ltd.						

e-Auction Schedule for Allotment of Industrial Plots in IE Faridabad (developed by HSVP & now transferred to HSIIDC), IMT Manesar (Phase-V), IE Rai

HSIIDC

(under General Category)

HSIIDC had opened the registration for participation in e-Auction for allotment of industrial plots in various Industrial Estates (IE Faridabad with closing date of registration as 8.02.2024; IMT Manesar and IE Rai with closing date of registration as 6.02.2024). The schedule of e-Auction for these Industrial

Auction Name/Plot Size Category*	Auction ID	Date of e-Auction	No. of plots on offer
IE Faridabad - 250 sqm	1362	9.03.2024	5
IE Faridabad - 475 sqm	1363	9.03.2024	4
IMT Manesar - 1800 sqm (Phase-V)	1339	9.03.2024	1
IE Rai - 2700 sqm	1351	9.03.2024	1
IE Rai - 4200 sqm	1352	9.03.2024	1
֡	Category* IE Faridabad - 250 sqm IE Faridabad - 475 sqm IMT Manesar - 1800 sqm (Phase-V) IE Rai - 2700 sqm	Category* ID	Category* ID e-Auction IE Faridabad - 250 sqm 1362 9.03.2024 IE Faridabad - 475 sqm 1363 9.03.2024 IMT Manesar - 1800 sqm (Phase-V) 1339 9.03.2024 IE Rai - 2700 sqm 1351 9.03.2024

Wherever the basic minimum infrastructure is yet to be developed, the allotment shall be without offer of

(i) The Round-1 of each e-Auction shall start at 7.00 AM on the scheduled date; (ii) The standard closing time of Round-1 of each e-Auction shall be 11.00 AM on the scheduled date. All subsequent rounds shall be of 10 minutes duration, subject to extension as below; (iii) There will be unlimited extensions - The auction time of the round(s) will get extended by 10 minutes in case of receipt of any bid in the last 5 minutes; (iv) In case the e-Auction does not conclude till 9.00 PM, the e-auction will pause at 9.00 PM (the round in progress at 9.00 PM shall continue even after 9.00 PM till its closing) and fresh round shall re-start at 7.00 AM the next day; (v) The minimum bid increment has been kept at Rs.200/- psm in all categories; (vi) The H-1 payment shall be scheduled after acceptance of bids by the competent authority, payable within 7 days (168 hours) of scheduling; (vii) The number of plots indicated above are tentative and HSIIDC shall reserve to itself the right to withdraw any site/category from auction or add any site for auction at any stage without assigning any reason; (viii) The HSIIDC shall reserve to itself the right to accept any bid/category or reject any bid/category, even the highest bid at any stage, without assigning any reason

RESERVE PRICE AND BID PRICE ON THE E-AUCTION PORTAL WOULD BE INDICATED ON PER SQUARE

All registered bidders may please note the above for participation in e-Auction on scheduled date and please note that no separate notice shall be sent in this regard. The details of plots on offer can be seen on the e-Auction portal hsiidc.bidx.in and www.hsiidc.org.in

Criteria for decision regarding H-1 bids received may be referred at website www.hsiidc.org.in (https://hsiidc.org.in/estate_management_procedure) as well as e-Auction portal/websitehttps://hsiidc.bidx.in

For further details, including process of e-Auction, please refer to the e-Auction brochure available on e-Auction portal hsiidc.bidx.in.



Haryana State Industrial & Infrastructure Deve. Corp. Ltd. Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, Website: hsiidc.org.in, E-mail: contactus@hsiidc.org.in

दिनांक: 06.03.2024

रामगढ़िया कॉ—ऑपरेटिव बैंक लि. मुख्यालय पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055 www.ramgarhia

मैसर्स युग ओवरसीज मालिक श्री दीपक कुमार, निवासी 104, कमल हाउस, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110 015 अन्य पता : सी–6 / 50बी, केशव पुरम, दिल्ली–110035

विषय : संपत्ति की बिक्री नवार्य, आपके अनुरोध दिनांक 29.01.2016 के अनुसार, मैसर्स युग ओवरसीज मालिक श्री दीपक कुमार के ओड़ी खाता सं. 010700245701 के साथ गिरवी संपत्ति का भौतिक कब्जा का हैंडओवर। इस संबंध में बैंक ने पर्व कब्जा बोली के साथ संपत्ति की बिकी का निर्णय लिया है। आपका बकाय राशि रु. 39,00,000 /— (रु. उनतालीस लाख केवल) अतः बैंक ने बैंक के उच्च प्राधिकरण, प्रबंधन द्वारा अनुमोदित् 21.02.2024 को रु.5,00,000 / - (रु. पांच लाख केवल) की आपकी संपत्ति के लिए उच्च बोली प्राप्त की है। अतः कानून के अनुसार आपको यह सूचित किया जाता है कि या तो आप 30 दिनों के भीतर आपका बकाया राशि जमा करें या बैंक उच्चतम बोलीदाताओं को संपत्ति की बिक्री करेगा। धन्यवाद.

i) श्रीमती रचना बुद्धिराजा पत्नी श्री दीपक कुमार

2) श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री एम. डी. अरोड़ा निवासी ई-16 / 189, सेक्टर 8, रोहिणी



STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED Rourkela Steel Plant

Rourkela - 769 011, Odisha, India

Ref.No. RSP/MKTG./EOI/HOT STRIP MILL_HSM -1/23-24/ Dated: 28/02/2024

Invitation of "Expression of Interest" (EOI) for Selling of Hot Strip Mill of HSM-1 as a single production unit, which is under operational & producing mode at SAIL - RSP, ROURKELA except New Dividing Line (NDL).

SAIL, Rourkela Steel Plant invites EOI from the interested parties for Selling of Hot Strip Mill of HSM-1 as a single production unit, which is under operational & producing mode at SAIL - RSP, ROURKELA except New Dividing Line (NDL) on "As is where is & No complaint basis"

The EOIs should reach us by 20/03/2024. For further details and the EOI format, the interested parties may please visit SAIL website www.sailtenders.co.in.

GM, I/c. (MARKETING) Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003 orporate Identity Number: L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in

There's a little bit of SAIL in everybody's life

Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. **Ph:** 91 (11) 41029297 Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

Folio	Name of the Registered holder	Certificate	Distinct	ive Nos.	No. of
No.	Name of the Registered noider	No.	From	То	Shares
3133	P D Goyal	2919	10970354 -	10970354	1
2101	Gandhi Sharma	2125	10881187 -	10881354	168
		7302	39232408	39232491	84
2611	Ashok Kumar Agrawal	2640	10957514	10957625	112
		7582	39251317	39251372	56
2610	Sudha Devi Agrawal	2639	10957289	10957513	225
		7581	39251205	39251316	112

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner

Coforge Limited Dated: March 07, 2024 Barkha Sharma Company Secretary Place: Greater Noida

कब्जा सूचन (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार आकाशदीप छोंकर और प्रभा छोंकर को 17.08.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00287440 की राशि रु. 4.72.675.73/- (रूपए चार लाख बहत्तर हजार छह सौ पचहत्तर और तिहत्तर पैसे मात्र) और 16.08.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता कं सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **04.03.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 4,72,675.73/- (रुपए चार लाख बहतर हजार छह सौ पचहत्तर और तिहत्तर पैसे मात्र) 16.08.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुत कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर वीए-2810. (1 बीएचके). 28वीं मंजिल पर. टावर-वीए. सपर एरिया 515 वर्ग फीट. ''अजनारा पैनोरमा'' नाम के प्रोजेक्ट में. कवर्ड कार पार्किंग स्थान के उपयोग के अधिकार के साथ जीएच-04 पर स्थित है, सेक्टर-22ए, यमुना एक्सप्रेसवे, जिला गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 04.03.2024 स्थान : ग्रेटर नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

प्रपत्र बी सार्वजनिक उदघोषणा रतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का विनियम 12 टी आर एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ हेतु कार्पोरेट ऋणधारक का नाम कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की निधि 01-04-2003 3. वह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, दिल्ली ऋणधारक निगमित / पंजीकत है कॉर्पोरेट पहचान सं./कॉर्पोरेट देनदार की U74899DL2003PTC119643 सीमित देयता पहचान सं 5. कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय पंजीकत कार्यालयः सम्पत्ति नं. 2289, प्लॉट नं. 141/9 तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता भूतल गली नं. 61, ब्लॉक बी, संत नगर गांव, बुराड़ी नः दिल्ली -110084 इन्सॉल्वैन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने 27.02.2024 की तिथि 28.02.2024 (माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर 06 कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शरू होने की तिथि 03.2024 को अपलोड की गई) 8. परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वैन्सी प्रोफेशनल विजेंदर शर्मा का नाम एवं पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022 9. बोर्ड के पास पंजीकृत परिसमापक का पता पताः बिल्डिंग नं. 11, तीसरी मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव तथा ई-मेल विकास मार्ग, दिल्ली-110092 मेल-आईडीः vijender@vsa.net.in 10. परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु इस्तेमाल पताः वीआरएसए इन्सॉर्ल्वेसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, बिल्डिंग किया जाने वाला पता एवं ईमेल नं. 11, तीसरी मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 मेल-आईडीः ip.trstechnology@gmail.com 11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि रतद्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-।। ने 28.02.2024 को **टी आर एस दननोतांजी प्राइवेट लिमिटेड** का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। (06-03-2024 को माननीय एनसीएलटी की

तसाइट पर अपलाङ ।कथा 'गथा' आर एस टेक्नोलीजी प्राइदेट लिमिटेड के हितचारकों को प्रमाण के साथ अपने दावे 05.04.2024 को या उससे पूर्व आइट . 10 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। द्मिन का प्रमाण एक हलफनामे (नीटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के समक्ष गवाही दी गई) और भारतीय दिवाला और देवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के तहत निर्धारित दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ

नेम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है: क्वॉर्म सी – परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए (श्रमिकों और कर्मचारियों को छोड़कर)

कॉर्म डी – वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए

फॉर्म ई – कामगार या कर्मचारी द्वारा दावों के लिए

जर्म एफ - श्रमिकों या कर्मचारियों के अधित प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए कॉर्म जी - किसी अन्य हितधारक द्वारा दावों के लिए

तयों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित निम्नलिखित लिंक https://ibbi.gov.in/en/home/downloads से डाउनलो वेत्तीय क्रेडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धत्ति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्तिगत य

ाक द्वारा या इलेक्टॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे के झूठे या प्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

मुद्रि कोई हितथारक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपने दावे प्रस्तुत नहीं करता है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कोर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया क्तर्यों के लिए दिवाला समाथान प्राक्रया। ावानवम, २०1० च पार्या हुए । बारक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों को धारा 38 के तहत प्रस्तुत माना जाएगा। **परिसमापक का नाम और हस्ताबरर**

दिनांकः **08-03-202**4 स्थानः दिल्ली

परिसमापक- मैसर्स टी आर एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईपी पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022 पता- वीआरएसए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी 11 (तीसरी मॅजिल) हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, विल्ली-110092 ई-मेल-आईडीः vijender@vsa.net.in , ip.trstechnology@gmail.com एएफए वैषता 02.10.2024 तक UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र. 201301

पत्र प्रचार के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

क सचना एतद दारा दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने मलधन के पनर्भगतान और बैंक से उनके दारा पाप ऋण सविधाओं के ब्याज दे गगतान में चक की है और प्रत्येक खाते के खिलाफ वर्णित उक्त सविधाएं **गेर-निष्पादित आस्तियों** के रूप बदल गई है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकर . वं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रां) को पंजीकृत डाक द्वारा उनकें अंतिग गत पते पर सूचना जारी कि गई थी। तथापि, सूचनाओं को असेवित लौटा दिया गया है और प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं वि उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) सूचना की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए उन्हें एतद् द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ता / गारंटर और शाखा का नाम	प्रत्याभूत परि संपत्तियोंका विवरण	मांग सूचना की दिनांक	एनपीए की दिनांक	मांग सूचना अनुसार राशि	
शाखा : फरीदाबाद (हरियाणा) 1. आनंद कुमार पुत्र कैलाश सिंह यादव	आवासीय संपत्ति मापक क्षे४ ४७५ वर्ग फुट स्थित स्कार्टमं २०३/समग्र / १बीएचके/	01.02.2024	10.01.2024	रु.10,70,472 / – दिनांक 31,01,2024 तक प्लस	
(उधारकर्ता) डी–17, प्रथम तल, शौर्य पुरम अपार्टमें टस, शाहपर बामहेटा, एनएच–24,	पीछे की ओर, प्लॉट सं. 046, पॉकेट –सी, टाईप–एफ, खसरा सं. 799, सैर्यपुरम, शाहपुर बानहेटा, एनएस–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण व सर्वागीण भाग, जिसका सीमांकन निम्नप्रकार: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट				
अतिरिक्त: मधावा, वाराणसी, वाराणसी कैंट, उत्तर प्रदेश–221002, 2. कैलाश तनेजा	सं.सी—45, दक्षिण : प्लॉट सं. सी 47, यह संप् आनंद कुमार यानी आप दोनों से सम्बन्धित की दिनांकित : 28.03.2019	ात्ति आनंद कमार	पत्र कैलाश सिंह यादव	। और काशिका तनेजा पत्नी खो की जमा राशि का ज्ञापन	

पुत्र आनंद कुमार(उधारकर्ता) डी–17, प्रथम तल, शौर्य पुरम अपार्टमें ट्स, शाहपुर बामहेटा, एनएच–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009, **इसके अतिरिक्त:** 255, एयू/जीएफ, विपिन गर्डन, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली—110059, **ऋण खाता हाउसिंग (खाता सं. 221821013000004)**

भगतान करें. ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनिमाण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के प्रावधानों के अनुसार ु पूचना की दिनांक के 60 दिनों की समाप्ति के बाद आघे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को **हमारी पूर्व सहमति के** बिना, किसी भी तरह से ऊपर उल्लेखित प्रत्याभृत परिसंपत्तियों में से किसी के साथ, किसी भी तरह से निपटने से रोक दिया जाता है। यह विषय अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमारे लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

प्राधिकृत अधिकारी स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा) दिनांक : 07.03.2024

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

भागिकृत कार्यालयः प्लॉट-15, छठवीं मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 शाखा कार्यालयः मारवाड हाउस, दूसरी मंजिल, सूचना केंद्र सर्कल के निकट, जयपुर रोड अजमेर, राजस्थान 305001 शाखा कार्यालयः अहाना टावर, जय कॉमप्लेक्स, रोड नं. 2, अलवर-301001 शाखा कार्यालयः खसरा नं. 1539, चक नं. 2, मेन सोजत रोड, ब्रह्म विहार गौतम विहार पाली-306401 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सी-5, पहली मंजिल, मीरा नगर, वित्तौडगढ़-312001, शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, 10-डी, पंजावनी कॉमप्लेक्स, मल्टीपरपज स्कूल रु सामने, गुमनपुरा, कोटा-324007, राजस्थान

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

वुंकि, इंडिया शेल्टर फाइनैंस एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रवर्त पतिभृति) हित अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग o तहत जैसा कि यहां बाद में उल्लेख किए गए खाते के समक्ष निर्दिष्ट तारीख को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार तथा सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी/जमानतदात को कथित सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर रकम चुकता करने को कहा गया था। चुकि सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी तथा अन्य द्वारा रकम चुकता करने में विफट होने पर एतद्द्वारा यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियम के नियम 8 एवं 9 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेखित तारीख को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों पर भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार तथा आम तौर पर जनसाधारण को संबंधित सम्पत्तियों के बारे में कोई भी सौदा नहीं करने के लिए सतर्क किया जात तथा सम्पत्तियों के बारे कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रभा का विषय होगा।

गणापित /प्राचनी गण जन्मी गर्न समान्ति (सम्मिदिन मांग सन्त्रा की नाग्रीक मांग सन्त्रा की नाग्रीक करून की नि

Я		प्रभारित/गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति (साम्मालत	माग सूचना की तारीख, माग सूचना की तारीख	कब्जा की तिथि
₹	ं स्वत्वाधिकारी) के नाम, ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा) का विवरण	को बकाया रकम रकम	एवं प्रकार
1	श्री/श्रीमती सुनीता एवं श्री/श्रीमती दिनेश कुमार	वार्ड नं. 09, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता सिटी एवं	मांग सूचनाः 22.03.2023 दिनांक 22.03.2023	02/03/
L		जिला नागौर, राजस्थान में स्थित 40.30 वर्ग यार्ड	को बकाया रु. 757822.06/- (रुपये सात लाख	2024
ı		(362.72 वर्ग फीट) परिमाप क्षेत्रफल का मकान का	सनतावन हजार आठ सौ बाईस एवं पैसे छह	भौतिक
ı	341510 मेड़ता, और एक पताः वार्ड नं.	सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री रमजान	मात्र) साथ में दिनांक 23.03.2023 से भुगतान	कब्जा
ı	09 तहसील मेड़ता, सिटी एवं जिला नागौर,	तेली का मकान एवं श्री चम्पालाल प्रजापत का मकान,	की तारीख तक ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
ı	राजस्थान 341510. ऋण खाता नं.:	पश्चिमः गली, उत्तरः श्री रमजान तेली का मकान,		
ı	LA30CLLONS000005004211	दक्षिणः श्री चम्पालाल प्रजापत का मकान एवं श्री पुखराज		
L		प्रजापत की सम्पत्ति।		
2	श्री/श्रीमती ममता एवं श्री/श्रीमती श्याम लाल,	केएच नं. 188, ग्राम अजीजपुर मुंडावार, अलवर राजस्थान	मांग सूचनाः 11.12.2021	03/03/
ı	निवासीः प्लॉट नं. 2 रुंध सोरखा कला, मुंडावर,	301404 में स्थिति सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण	दिनांक 31.12.2021 को बकाया	2024
ı	अलवर-301404, राजस्थान, और एक पताः	हिस्सा। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 422.22 वर्ग यार्ड।	रु. 12,62,336.02/- (रुपये बारह लाख बासठ	भौतिक
ı	केएच नं. 188, ग्राम अजीजपुर, मुंडावार,	चौहद्दीः पूर्वः अन्य रिक्त भूमि, पश्चिमः सङ्क, उत्तरः	हजार तीन सौ छत्तीस एवं पैसे दो मात्र) साथ में	कब्जा
ı	अलवर । ऋ ण खाता नं. :	महावीर का प्लॉट, दक्षिणः सुंदर का प्लॉट।	दिनांक 01.01.2022 से भुगतान की तारीख तक	
ı	LA11CLLONS000005002699		ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
L	एवं LA11ECLONS000005031622			
3	श्रीमती भंवरी देवी, श्री भंवर लाल एवं अन्य,	प्लॉट नं. 126, चक नं. 01, खसरा नं. 943, विकास	मांग सूचनाः 27.04.2022 दिनांक 30.04.2022	04/03/
ı		नगर विस्तार, जिला पाली (राजस्थान) में स्थित सम्पत्ति	को बकाया रु. 3,92,839.28 (रुपये तीन लाख	2024
ı	पाली-306401, राजस्थान।	का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः सङ्क्, पश्चिमः	बानवे हजार आठ सौ उनतालीस एवं पैसे अठाईस	भौतिक
ı	ऋण खाता नं.:	प्लॉट नं. 131, उत्तरः प्लॉट नं. 125, दक्षिणः प्लॉट नं.	मात्र) साथ में दिनांक 01.05.2022 से भुगतान	कब्जा
ı	HI2000003902	126-ए।	की तारीख तक ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
4		सिंगोला जीपी कांति, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़,	मांग सूचनाः 28.09.2022	02/03/
Г	श्री रतन लाल गुर्जर तथा श्री गिरधारी गुर्जर,	राजस्थान-312901 में स्थित पट्टा नं. 38, पट्टा बही	दिनांक 28.09.2022 को बकाया	2024
ı	निवासी: सिंगोला, पानी टंकी के निकट, कांति,	नं. 143, मिस्सल नं. 19, अराजी नं. 1691 वाली	रु. 5,73,831.59/- (रुपये पांच लाख तिहत्तर	भौतिक
ı	तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान-	सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहदीः पूर्वः	हजार आठ सौ इकतीस एवं पैसे उनसठ मात्र)	कब्जा
ı	312901, ऋण खाता नं.: LAP200004742	गोपी का मकान, पश्चिमः सङ्क, उत्तरः सङ्क, दक्षिणः	साथ में दिनांक 29.09.2022 से भुगतान की	
ı	एवं LA31LALONS000005027098	निजी कृषि भूमि।	तारीख तक ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
5	श्रीमती रेखा देवी तथा श्री शांति लाल जटिया,	पट्टा नं. 35 ग्राम एवं जीपी कृवलिया, थाना गंगरार,	मांग सूचनाः 10.05.2021	06/03/
۱		जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, 312901 में स्थित सम्पत्ति	दिनांक 31.05.2021 को बकाया	2024
ı	पट्टा नं. 35, जिला चित्तौड़गढ़ 312901,	का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, क्षेत्रफल 1062 वर्ग	रु. 5,15,368.17/- (रुपये पांच लाख पंद्रह	भौतिक
ı	राजस्थान, ऋण खाता नं.:	फीट। चौहदीः पूर्वः सार्वजनिक रास्ता, पश्चिमः शिव	हजार तीन सौ अङ्सठ एवं पैसे सतरह मात्र)	कब्जा
ı	HL31CHLONS000005003285	लाल तेली की सम्पत्ति, उत्तरः सोहन लाल बैरवा की	साथ में दिनांक 01.06.2021 से भुगतान की	
ı		सम्पत्ति, दक्षिणः बाल किशन बैरवा की सम्पत्ति।	तारीख तक ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
6		मानपुरा बरां रोड, कोटा, जिला कोटा, राजस्थान में	मांग सूचनाः 24.12.2022 दिनांक 24.12.2022	06/03/
1		स्वराज अवासीय योजना के आबंटन नं. 1838, फ्लैट	को बकाया रु. 7,91,977/- (रुपये सात लाख	2024
1		नं. ए-219 की सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा,	इक्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) साथ में	भौतिक
ı	राजस्थान, ऋ ण खाला नं .:	क्षेत्र का परिमाप 550 वर्ग फीट।	दिनांक 25.12.2022 से भुगतान की तारीख तक	कब्जा
1	HL32AHLONS000005002782		ब्याज तथा अन्य शुल्क एवं लागत।	
	000000000000000000000000000000000000000	0.0 (-,) : 0.0	/	

किसी भी तरह की जानकारी के लिए कृपया श्री विनय राणा (+91 7988605030) एवं श्री दीपक सुथर (+91 9649990190) तथा श्री नवोदित त्रिपाठी (+91 9694254879) पर सम्पर्क करें (अधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉरपोरेशन लि. स्थान : राजस्थान तारीख: 08.03.2024

बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** 🖈

फरीदाबाद एसएमई शाखा : एससीओ 60. सेक्टर 31 फरीदाबाद. हरियाणा-121003, दरभाष : 0129-2255173, 22373809 ई-मेल : faridabadsme.chandigarh@bankofindia.co.in

ारिशिष्ट-IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (चल∕अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदार/रों तथा जमानती(यों) से सूचना में प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर धारा 13(2) के तहत माँग सचना निर्गत की थी। कर्जदार(रों) के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता

िक अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहर उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी

दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार राशि तथा उस पर भावी ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया, फरीदाबाद, एसएमई शाख के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचि करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (९) के पातभानों की ओर शाकार किया जाता है।

(४) क प्रायवाना का जार ज	(8) के प्राययांना की जार आकृष्ट किया जाता है।				
कर्जदार, जमानती तथा बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	
कर्जदार : मैसर्स आर.के. एंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर श्री	05.12.2023	02.03.2024	रु. 28,39,000/- तथा उस पर ब्याज	संपत्ति का वह समस्त भाग, जिसमें संपूर्ण स्टॉक, प्रकार के ऑटो पार्ट्स और अन्य	
केहरी लाल के माध्यम से) तथा गारंटर : श्री रंजीत कुमार	केहरी लाल के माध्यम से) प्रभार्य वर्तमान संपत्ति, जहां भी स्थित हो, का दृष्टिबंधक शामिल है, साथ ही संपूर्ण प्राप्य, फर्मों के बुक				
तथा गारेटर : श्री रेजीत कुमार पुत्र फर्कीरे लाल संपारिर्वक प्रतिभूति; – ब्लॉक–सी, डबुआ कॉलोनी, मौजा डबुआ, तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित					

खसरा नंबर 7/2 में शामिल, 113.00 वर्ग गज की आवासीय संपत्ति संख्या डीसी–2373 (पुराना प्लॉट नंबर 115) का इक्विटेबल बंधक श्री केहरी लाल पुत्र श्री फकीरे लाल के स्वामित्व और अधिकार में, सीमाएं:- उत्तर की ओर: गली; दक्षिण में: अन्य संपत्ति; पूर्व में: प्रकाश ठाकुर का घर; पश्चिम में: खाली प्लॉट।

मैसर्स लिशिका 02.03.2024 ₹. 89.37.000/-अग्रलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त क्रर्जदार (समाचार पत्र प्रोपराइटर श्रीमती गरमेंट्स, हेमा पत्नी श्री नीरज के को प्रकाशित) भाग : पूरे स्टॉक, कपड़ा, परिधान और कपड़े के सामान के प्रकार और अन्य प्रभाय माध्यम से एवं गारंटर : श्री वर्तमान संपत्ति, जहां कहीं भी स्थित हो, के साथ-साथ संपूर्ण प्राप्य, फर्मों के बुक ऋण का दृष्टिबंधक संपार्श्विक प्रतिभूतिः - (1) 211.11 वर्ग गज (20 x 95) फीट की आवासीय संपत्ति संख्या 4699 का इक्विटेबल बंधक, रेक्ट नंबर 13 किला नंबर 3/2,8/2 का हिस्सा, नंगला एन्क्लेव भाग-II, मौज नंगला गुजरान, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद में स्थित, हेमा पत्नी श्री नीरज के स्वामित्व में,

सीमाएं:- उत्तर में: श्री मनोज गौतम की संपत्ति; दक्षिण में: डॉ. महेंद्र गौतम का घर; पूर्व में: 33' चौड़ी सड़क; पश्चिम में: शिव मंदिर (2) संपत्ति संख्या 4481/1 का इक्विटेबल बंधक, माप 344 वर्ग गज (50 ७ 62) फीट, रेक्ट नंबर 13, किला नंबर 3/2,8/2 का हिस्सा, हाइड्रोन प्राइवेट लिमिटेड के पास, नंगला एन्क्लेव भाग−Ⅱ, मौजा नंगला गुजरान, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद में स्थित, स्वामित्व हेमा पत्नी श्री नीरज के पास, सीमाएं:- उत्तर मेंः रास्ता; दक्षिण में: पीछे का अतिरिक्त भाग निर्माण सहित/इग्नोर्ड; पूर्व में: रास्ता 18; पश्चिम में: मैसर्स हाइड्रोन कंपनी

कर्जदार:- श्री केहरी लाल पुत्र	05.12.2023	02.03.2024	रु. 10,94,000/−	डबुआ कॉलोनी, मौजा डबुआ, तहसील
फकीरे लाल और श्रीमती			तथा उस पर ब्याज	और जिला फरीदाबाद में स्थित आवासीर
सुनीता देवी पत्नी श्री केहरी	संपत्ति संख्या ग	नकान नंबर डी-18	835, खसरा नंबर 36/10 रि	मन के इक्विटेबल बंधक से युक्त संपत्ति क
लाल	ययस्य भागः य	नामिल और करू	ग श्रीमती सनीता देती पत्नी	थी केटरी लाल थेत्राच्य ९०,०० वर्ग गज

सीमाएं:- उत्तर की ओरः गली 11' चौड़ी; दक्षिण में: रास्ता 15 फीट; पूर्व में: पंडित जिथेन का खाली प्लॉट, श्रीमती कविता का घर पश्चिम में: रास्ता।

कर्जदार:- श्रीमती रूना देवी	29.08.2023	02.03.2024	₹. 43,83,000/-	संपत्ति 175.00 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट	
पत्नी श्री श्रीनिवास एवं श्री				के इक्विटेबल बंधक का समस्त भाग,	
श्रीनिवास पुत्र श्री राम प्रवेश प्लॉट नंबर 75 और 76 में से, खेवट/खाता नंबर 374/494, रकबा नंबर 25, किला नंबर 15/2 (0-2),					
	16/1 (2-12)	25/2 (2-19)	रेक्ट संबर २६ किला संब	प्र २०(० <u>-10) २1(४-१)</u> रेक्ट संबंध २७	

किला नंबर 1(7-17), 2(1-18), 9(5-16), 10(8-0), 11(8-0), 12(7-15), 13(0-11), रेक्ट 28 किला नंबर 6/1(1-18) का हिस्सा, मौजा झाड़शैंटली, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित है, स्वामित्व श्रीमती रूना देवी पत्नी श्री निवास के पास, सीमाएं:- उत्तर की ओरः सड़क/रास्ता; दक्षिण दिशा मेंः जयंती तोमर की संपत्ति/भूखंड का शेष भाग; पूर्व में: राहुल कुमार का घर; पश्चिम

कर्जदार:- श्रीमती सुवति शर्मा 04.12.2023 02.03.2024 रु. 9,97,000/ संपत्ति मौजूदा मकान नंबर 1169/744 का तथा उस पर ब्याज पत्नी श्री राकेश शर्मा समस्त भाग, दया कॉलोनी, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, संपत्ति आईडी नंबर P07005900397,

माप 40 वर्ग गज, नगर निगम फरीदाबाद की राजस्व संपदा सीमा के भीतर स्थित, मौजा ऊंचागांव की सीमा के भीतर स्थित, मुस्तातिल नंबर 55, किला नंबर 22,21/1/12,23/2 मुस्तातिल नंबर 58, किला नंबर 1, 2 मुस्तातिल नंबर 55, किला क्रमांक 3, 20/1, मुस्तातिल क्रमांक 57, किला क्रमांक 6, मुस्तातिल क्रमांक 55, किला क्रमांक 8/1, 8/2, 13, 18, 21/2, स्वामित्व और कब्जा श्रीमती सुवती शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा के पास। सीमाएं:- उत्तर में: सड़क मार्ग से, पूर्व में; दक्षिण पश्चिम में: अन्य संपत्ति; उत्तर में: श्रीमती अनीता की संपत्ति; दक्षिण में: श्री कमलेश की संपत्ति

तिथि : 07.03.2024, स्थान : फरीदाबाद

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि, **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (''आईएचएफएल'')** ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (2002 का 54) (''उक्त एक्ट'') और नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 (उक्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ता **संगीता अग्रवाल (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय राकेश बंसल की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)** और रोनक बंसल (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय राकेश बंसल के पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी) प्रोपराइटर बंसल एसोसिएट्स दोनों सी/ओ एम/एस पेंट एम्पोरियम को **कर्ज खाता नं. HLAPAGR00349450** के तहत दिनांक 24.11.2022 की सूचना में 22.11.2022 तक उल्लिखित राशि जो रु. 91,85,322.66/- (रुपए इक्यानवे लाख पचासी हजार तीन सौ बाईस और छियासठ **पैसे मात्र)** है को उक्त सविधा के संबंध में **23.11.2022** से भगतान/वसली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ. उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आवाह्न करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

और जब कि बाद में, **आईएचएफएल** ने दिनांक **01.12.2022** के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से **आईएचएफएल** द्वारा कर्जदार 7 गारंटर/ गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिक्योरिटी रिसिप्ट धारकों के लाभ के लिए **एआरसीआईएल–सीपीएस–॥, ट्रस्ट (''एआरसीआईएल'')** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं। इसलिए, उक्त असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए, **आईएचएफएल** के स्थान पर अब एआरसीआईएल के रखा गया है और एआरसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाही को शरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है।

एआरसीआईएल को उक्त धनराशि चुकता करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एतद्वारा विशेषतः कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि एआरसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **04.03.2024** पर, नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत : कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 22.11.2022 तक रू. 91.85.322.66/- (रूपए इक्यानवे **लाख पचासी हजार तीन सौ बाईस और छियासठ पैसे मात्र)** की राशि के लिए उक्त सुविधा के संबंध में **23.11.2022** से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ **एआरसीआईएल** वे शुल्क के अधीन होगा।

नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है।

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का स्वामित्व : राकेश बंसल प्रोपर्टी नंबर 1

दुकान, संपत्ति बेअरिंग नगर निगम नंबर 15/28 का हिस्सा, क्षेत्रफल 14.68 वर्ग मीटर, सोरों कटरा में स्थित है, शाहगंज लोहामंडी वार्ड. तहसील और जिला आगरा।

पर्व : 10 फीट चौडा सार्वजनिक पैसेज। उत्तर : मौजदा संपत्ति की सीढियां। पश्चिम : सलामुद्दीन और श्री निजामुद्दीन का मकान। दक्षिण : 30 फीट चौडी सडक।

प्रोपर्टी नंबर 2 मकान बेअरिंग नगर निगम नंबर 15 / 28 का हिस्सा, क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर, सोरों कटरा, शाहगंज में स्थित है, लोहामंडी वार्ड,

तहसील और जिला आगरा पूर्व : खेराती लाल का मकान। पश्चिम : किशन का मकान।

उत्तर : श्याम का मकान दक्षिण : कुछ भाग में संपत्ति का शेष भाग और कुछ भाग में 4 फीट चौड़ी गली / निकास मार्ग।

एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल-सीपीएस-॥, टस्ट के टस्टी) दिनांक : 04.03.2024 स्थान : आगरा प्राधिकृत अधिकारी



वरूण बेवरेजेज् लिमिटेड

गंजीकृत कार्यालयः एफ−2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -I, नई दिल्ली – 110 020; दूरभाषः +91 11 41706720 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर – 44, गुरुग्राम – 122 002 (हरियाणा) दूरमाषः +91 124 4643100, ई—मेलः complianceofficer@rjcorp.in; वेबसाइटः www.varunbeverages.com कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC069839

29वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

यह 4 मार्च, 2024 के हमारे पहले संचार के क्रम में है, जिसमें वरुण बेवरेजेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सिंतबर, 2023 सहित पिछले सामान्य परिपत्रों के साथ पठित (एमसीए परिपत्र) निदेशक मंडल ने कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 03 अप्रैल, 2024 को पूर्वाह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को क्रियान्वयन करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने का निर्णय लिया।

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 29वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट गुरूवार, 7 मार्च, 2024 को, एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और पिछले सेबी परिपत्रों के अनुसार, ई—मेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ई–मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के पास पंजीकृत था। ये सब कंपनी की वेबसाइट (www.varunbeverages.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध हैं । कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम की विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

द्वारा जारी सचिवीय मानक—2 तथा एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, 29वीं एजीएम सूचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने के लिए एनएसडीएल द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई- वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है। रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 31 मार्च, 2024 (पूर्वाह 9:00 भारतीय मानक समय) को प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 2 अप्रैल.

2024 (संध्या 5:00 भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान इलेक्टानिक माध्यम से कर सकते है। तदउपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से दोबारा मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। इसके अलावा, केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान

एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, ई-मेल पते का पंजीकरण, लॉगिन विवरण प्राप्त करने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 29वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

श्री कपिल देव तनेजा या उनकी अनुपस्थिति में श्री नीरज अरोड़ा, पार्टनर्स, संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को मतदान का अधिकार बुधवार 27 मार्च, 2024 ("कट ऑफ तिथि") को कंपनी के चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में उल्लेखित है, वह ही केवल एजीएम में सम्मिलत होने के लिए अधिकृत होगा, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझें।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के शेयरों को अधिग्रहित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयरों का स्वामित्व रखता है, वह 29वीं एजीएम के सूचना में लिखे हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com पर आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ रिमोट ई—वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो 29वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

इसके साथ, अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तक बुधवार, 27 मार्च, 2024 से बुधवार 03 अप्रैल, 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) 29वीं एजीएम के कारण बंद रहेंगी।

यदि आपने कम्पनी / डीपी / आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो निम्न निर्देशों का पालन करें ।

भौतिक रूप कृपया केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर या कंपनी को से धारित |complianceofficer@rjcorp.in पर ई-मेल पता दर्ज करने के लिए पैन और आधार कार्ड की स्वय सत्यापित प्रतिलिपि, अपना नाम, फोलियो नंबर और शेयर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (आगे और पीछे) भेजें। करते हुए

डीमैट रूप कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते से धारित में अपना ई—मेल पता पंजीकृत करें। करते हुए

सेबी ने भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त विवरण / परिपत्र आरटीए को प्रदान नहीं किए जाते हैं। इस संबंध में प्रासंगिक विवरण और निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.varunbeverages.com

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी। अंतिम लाभांश का भुगतान सदस्यों को निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर और कंपनी या उनके संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत शासनादेश के अनुसार किया जाएगा। यदि हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश का पंजीकरण न होने के कारण किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, कंपनी ऐसे सदस्यों को निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर उनके पंजीकृत पते पर बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।

मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों या 3 दिवसों, जो भी पहले हों, के भीतर घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित किए गए परिणाम पर्यवेक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www. varunbeverages.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई—वोटिंग यूजर मैन्अल देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013 022–48867000 / 022–24997000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को complianceofficer@rjcorp.in पर ई—मेल लिखें

के लिए और की तरफ से वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड हस्ता. / –

रवि बत्रा

दिनांकः मार्च 7, 2024

स्थानः गुरुग्राम

मुख्य जोखिम अधिकारी एवं समूह कंपनी सचिव